



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1935 (श0)  
(सं0 पटना 313) पटना, बुधवार, 17 अप्रील 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 अप्रील 2013

सं0 5/पी(यौं)3-10-106/2010-855—राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति का लाभ प्रदान करने सम्बन्धी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003" तथा "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली-2010" सम्बन्धी क्रमशः वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना 4685 दिनांक 25.06.2003 एवं 7549 दिनांक 13.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 04.03.2013 में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अभियंत्रण सेवा के श्री महेन्द्र प्रसाद मंडल (आई0डी0 कोड-एम0-0455), सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (यौंत्रिक) को निम्नांकित विवरणी में वर्णित तिथि से क्रमशः प्रथम, द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ एवं तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ विवरणी में अंकित वेतन बैंड/ग्रेड-पे विवरणी में अंकित देय तिथि से प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ आई०डी०/ वरीयता/ गृह ज़िला	सेवा में प्रवेश की तिथि	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के अन्तर्गत अनुमान्य लाभ				सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अन्तर्गत अनुमान्य लाभ		अभ्युक्ति
			प्रथम ए०सी०पी०		द्वितीय ए०सी०पी०		तृतीय एम०ए०सी०पी०		
			देय तिथि	वेतनमान्	देय तिथि	वेतनमान्	देय तिथि	अनुमान्य वेतनबैंड/ ग्रेड-पे	
1	श्री महेन्द्र प्रसाद मंडल, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता	06.02. 1979	09.08. 1999	रु० 10,000 से 15,200	06.02. 2003	रु०14,300 से 18,300	06.02. 2009	पी०बी०-4 रु० 37,400 से 67,000 ग्रेड-पे रु० 8,900	

क्र० सं०	नाम/ आई०डी०/ वरीयता/ गृह ज़िला	सेवा में प्रवेश की तिथि	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के अन्तर्गत अनुमान्य लाभ				सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अन्तर्गत अनुमान्य लाभ		अभ्युक्ति
			प्रथम ए०सी०पी०		द्वितीय ए०सी०पी०		तृतीय ए०सी०पी०		
			देय तिथि	वेतनमान्	देय तिथि	वेतनमान्	देय तिथि	अनुमान्य वेतनबैंड/ ग्रेड-पे	
	(याँ)/एम०-0455 273/2008 /मुंगेर (सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2010)								

2. वर्ष 1979 में कनीय अभियन्ता (असै०) के पदों पर नियुक्त यांत्रिक डिग्रीधारी अभियन्ताओं, जिन्हें बाद में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1378 दिनांक 3.4.1981 एवं संकल्प सं०-96 दिनांक 14.1.1982 के द्वारा उक्त कनीय अभियन्ताओं (असैनिक) के पदों को सहायक अभियन्ता (याँ०) के पदों के रूप में उत्कृष्टित पदों पर नियुक्त किया गया, को प्रथम कालवद्ध प्रोन्नति देने हेतु, वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में, इन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मानते हुए, कनीय अभियन्ता (असै०) के पदों पर नियुक्ति की तिथि से 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर कालवद्ध प्रोन्नति दी गयी। इसी आधार पर भारत सरकार के संकल्प संख्या-35034/1/97 ई०एस०टी० (डी०) वॉल्यू०-IV दिनांक 10.2.2002 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण, संवर्गीय प्रोन्नति से भिन्न, इन उत्कृष्टित अभियन्ताओं को नियुक्ति की तिथि से 12/24 वर्षों के उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिया गया है। तदनु रूप श्री मंडल को नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षों के उपरान्त रुपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त विभागीय संकल्प संख्या-96 दिनांक 14.1.1982 के आधार पर निर्गत अधिसूचना-97 दिनांक 14.1.1982 में कम०सं०-137 पर श्री मंडल का नाम भी अंकित है।

3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

4. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रदत्त लाभ से सम्बन्धित इस आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जाएगी।

5. रुपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्टित ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 7549 दिनांक 13.07.2010 के आलोक में सुनिश्चित किया जायेगा।

6. वित्तीय उन्नयन होने पर पदाधिकारियों का वेतन मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए (1) के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु० का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुशील कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 313-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>